

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी।**

क्रमांक ३२२

दिनांक ०३/०३/२०२०

इसके

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, टिकारी।

सेवा में

कारपाल
प्रधान डाकघर
गया।

वरिष्ठ डाकपाल
प्रधान डाकघर, गया।

06 MAR 2020

Senior Postmaster
Gaya H.O.

विषय :- टी०डी०/एन०एस०सी०/बिजी/एफ०डी० सत्यापन करने के संबंध में।
महाराज,

उपयुक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि संवेदक Vinod Sharma, At:- Sikaria, Maksudpur, Tekari, Gaya के नाम से निर्गत टी०डी०/एन०एस०सी०/बिजी एवं एफ०डी० कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल टिकारी के पदनाम से विधिवत प्रीतिष्ठित है एवं इस कार्यालय में जमा है, को सत्यापन करना चाहेंगे।

NSC विवरणी निम्न प्रकार है :-

Sl.No	Account No. of NSC	Date	Amount
1	4032195628	03.05.2018	23,000.00
2	4032222454	03.05.2018	23,000.00
3	4032386125	03.05.2018	2,000.00
4	3841180566	01.12.2017	20,000.00
5	4327190277	02.03.2019	27,000.00
	Total		95,000.00

विश्वासनाम

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी

वरिष्ठ डाकपाल
Sr. Postmaster
प्रधान डाकघर गया
Gaya H.O. 813001

NSC/BG



GAYA H/P/0 <8230012> Counter: 1
UCC No: A 4189
Name: E.E.R.W.D
Address: TEKARI GAYA
Account: 5.00
Purpose: MISCELLANEOUS
Description: PLEDGE FEE OF 3 YR TD
Recd. No: 403222454
Counter Asst. Code: <W> <1243>
भारतीय डाक

जमा Deposit/ Credit	निकासी Withdrawal/ Debit	बकाया Balance	स.र. Initial
---------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------

P.O Name : Civil Lines S.O Gaya
Scheme Description : TERM DEPOSIT FOR THREE YEAR
CIF ID : 173728230
Account Number : 4032222454
Name of Depositor(s) :
1: VINOD SHARMA/
2: /
3: /
First Depositor Address :
SIKARIA, MUKSUDPUR TEKARI GAYA
/ **PLEDGED IN F/O**
GAITA H. O.-823001
GAITA
BIHAR, 824236
Account Open Date : 03-05-2018
Maturity Date : 03-05-2021
Mode Of Operation : SELF
Date Of Birth : 16-10-1965
Nominee Registered : N
Agent ID : MI8230010500006
Yearly Interest Payable (approx) : 1628.00
Deposit Amount : 23000.00
Signature Of Postmaster :

8.5.2018
डाकपाल
डाकघर
(3)

लेन देन का विवरण/दिनांकित मोहर (यदि पासबुक प्रिन्टर काम नहीं कर रहा है और प्रविष्टि मैनुअल रूप से की गई है)
Particulars of Transactions/Date Stamp (in case passbook printer is not in use and entry made manually)

GAYA HPD <8230812>
UPR MOL. NO: A 236 Counter: 1 <07/05/2013>
Name: E.E.R.M.D
Address: TEKARI GAYA
Amount: 5.00
Purpose: Miscellaneous
Description: PLEASE FEE OF 3 IN
MOL. NO: 4032386125
Counter Asst. Code: <04> <12:42:00>
India Post

जमा Deposit/ Credit	निकासी Withdrawal/ Debit	बकाया Balance	स.र. Initial
---------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------

P.O Name : Civil Lines S.O Gaya
Scheme Description : TERM DEPOSIT FOR THREE YE
CIF ID : 173728230
Account Number : 4032386125
Name of Depositor(s) :
1: VINOD SHARMA/
2: /
3: /
First Depositor Address :
SIKARIA, MUKSUDPUR TEKARI GAYA
GAYA
BIHAR, 824236
Account Open Date : 03-05-2018
Maturity Date : 03-05-2021
Mode Of Operation : SELF
Date Of Birth : 16-10-1965
Nominee Registered : N
Agent ID : MI8230010500006
Yearly Interest Payable (approx) : 141.00
Deposit Amount : 2000.00
Signature Of Postmaster :

RECEIVED IN FIO
2013-05-07
TEKARI
GAYA (COUNTER)
823001

General Instructions

1. Passbook is a record of transactions for the information of the depositor and balance shown in it cannot be claimed legally.
2. It is the duty of the depositor to confirm balance shown in the passbook from the concerned post office and post office is legally liable to pay the amount actually available in its record.
3. Always take a printed receipt from the post office when you hand over the passbook to the post office for any purpose.
4. Always keeps the passbook in your personal custody and post office will not be responsible for any loss of money in case passbook is handed over to any other person.
5. Do not keep specimen signatures in the passbook.
6. Check balance after transaction written in the passbook and contact postmaster immediately in case any discrepancy.
7. In case of loss of passbook report the matter in writing to the postmaster immediately.
8. Intimate change of address if any to the postmaster.
9. Don't hand over blank signed withdrawal forms to any person including authorized agents.
10. Do not appoint postmasters or authorized agents as messengers for withdrawal of money from your account.

P.O Name : Civil Lines S.O Gaya
 Scheme Description : TERM DEPOSIT FOR THREE
 CIF ID : 173728230
 Account Number : 3841180566
 Name of Depositor(s) :
 1: VINOD SHARMA/
 2: /
 3: /
 First Depositor Address :
 SIKARIA, MUKSUDPUR TEKARI GAYA/
 /

GAYA
 BIHAR, 824236
 Account Open Date : 01-12-2017
 Maturity Date : 01-12-2020
 Mode Of Operation : SELF
 Date Of Birth : 16-10-1965
 Nominee Registered : N
 Agent ID : MI8230010500006
 Yearly Interest Payable (approx) : 1458.00
 Deposit Amount : 20000.00
 Signature Of Postmaster :

तारीख
Date

(यदि पास बुक डिपॉजिट कागज नहीं है और प्रविष्टि अनुमति कागज से की गई है।)
Particulars of Transaction/Date Stamp
(In case Postbook Printer is not in use and Entry made manually)

01-12-2017 T/ CI Tran. For Principal Amt

GAYA NPO <823001>
UCR No: A 4185 Counter: 1 <07/05/2018>
Name: E.E.R.W.D
Address: TEHARI GAYA
Amount: 5.00
Purpose: Miscellaneous
Description: PLEDGE FEE OF 3 YR
Acct. No: 3841180366
Counter Asst. Code: <04> <12>

भारतीय डाक
India Post

भारतीय डाक
India Post

2 DIRECT POST
THE DIRECT POST SERVICE

EXPRESS MAIL
POST
From post and a printed and a printed

Speed Post
PASSPORT
SERVICE
From post and a printed and a printed

Speed Post
PASSPORT
SERVICE
From post and a printed and a printed

जमा
Deposit

निकासी
Withdrawal

बकाया
Balance

स.ह.
Initial

20000.00

20000.00

PLEDGED IN F/O

E.E.R.W.D. TEHARI
APM (COUNTER)
GAYA H.O. 823001

07/12/2017

PLEDGED IN F/O

R. L. D. TEHARI
APM (COUNTER)
GAYA H.O. 823001

07/12/2017

MEDIA POST PASSPORT EPOST
TOUCHING THE HEART OF INDIA
From post and a printed and a printed

From post and a printed and a printed

From post and a printed and a printed

3

RECORDED IN F/CC
R.E.O. 60026501-1
APM (COUNTER)
GAYA H.O-823001
26/3/19

F.O Name : Civil Lines S.O Gaya
Scheme Description : TERM DEPOSIT FOR THREE
Account Number : 4327190277
Name of Depositor(s) :
1: VINOD SHARMA/
CIF -173728230
2: /
CIF -
3: /
CIF -
First Depositor Address :
SIKARIA, MUKSUDPUR TEKARI GAYA/
/

GAYA
BIHAR, 824236
Account Open Date : 02-03-2019
Maturity Date : 02-03-2022
Mode Of Operation : SELF
Date Of Birth : 16-10-1965
Nominee Registered : N
Agent ID : MI8230010500006
Yearly Interest Payable (approx) (in Rs): 19
(Rupees One Thousand Nine Hundred Forty)
Deposit Amount (in Rs):
(Rupees Twenty Seven Thousand)
Signature Of Postmaster :

26.3.19
27000
823001

प्रिय कर्म
की गई है।
passbook
ually



RECEIVED
ADDRESS: TEHARI GAYA
Amount: 5.00
PURPOSE: MISCELLANEOUS
DESCRIPTION: PLEDGE FEE OF 3 YR. 10
REGD. NO: 4032191835
Counter Asst. Under <04> <12:43:07>

जमा Deposit/ Credit	निकासी Withdrawal/ Debit	बकाया Balance	स.ह. Initial
---------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------

F.O Name : Civil Lines S.O Gaya
Scheme Description : TERM DEPOSIT FOR THREE YEAR
CIF ID : 173728230
Account Number : 4032191835
Name of Depositor(s) :
1: VINOD SHARMA/
2: /
3: /
First Depositor Address :
SIKARIA, MUKSUDPUR TEHARI (COUNTER)
/

PLEDGED IN F/O
7-5-18
GAYA H. O - 823001

GAYA
BIHAR, 824236
Account Open Date : 03-05-2018
Maturity Date : 03-05-2021
Mode Of Operation : SELF
Date Of Birth : 16-10-1965
Nominee Registered : N
Agent ID : MI8230010500006
Yearly Interest Payable (approx) : 1416.00
Deposit Amount : 20000.00
Signature Of Postmaster :

(2)

वर्षान (3)
स्थिति
गया 823001